

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 311

मंगलवार, 15 सितंबर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

**पर्यटन क्षेत्र को राजस्व हानियां**

311. **डा. अमर पटनायक:**

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या वर्ष 2020-21 में पर्यटन क्षेत्र को हुई राजस्व हानियों के संबंध में प्राक्कलन और/अथवा अनुमान उपलब्ध है;
- (ख) क्या मंत्रालय का पर्यटन को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रोत्साहित करने के संबंध में नई कार्यनीतियों को अपनाने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)**

(क) जी नहीं। पर्यटन मंत्रालय के पास चालू वर्ष के लिए पर्यटन के माध्यम से अर्जित राजस्व/राजस्व के नुकसान से संबंधित आंकड़े तैयार करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। तथापि वर्ष 2020-21 में पर्यटन क्षेत्र में राजस्व के नुकसान के आकलन के लिए कोई औपचारिक अध्ययन शुरू नहीं किया गया है। तथापि उद्योग जगत के हितधारकों के साथ विचार-विमर्श तथा विचार-मंथन सत्र के अनेक दौर आयोजित किए जाने के बाद राजस्व के व्यापक रूप से नुकसान का संकेत मिलता है। इस क्षेत्र के अत्यधिक असंगठित स्वरूप के मद्देनजर आंकड़ों के रूप में प्रभाव का आकलन समुचित समय पर ही किया जा सकेगा।

(ख) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने निम्नलिखित कार्यनीतियां/पहलें आरंभ की है:

- i. पर्यटन क्षेत्र को खोले जाने से संबंधित मुद्दों के बारे में उद्योग के हितधारकों के साथ नियमित विचार विमर्श,
- ii. पर्यटकों की देखभाल, सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल, सेवा संबंधी मानक आदि
- iii. वेबीनारो, सोशल मीडिया तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से घरेलू पर्यटन संवर्धन अभियान।

देखो अपना देश अभियान घरेलू संवर्धन का मुख्य आकर्षण रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस कोविड के बाद के परिदृश्य में यात्रा हेतु एक सुरक्षित गंतव्य के रूप में भारत के संबंध में घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के बीच विश्वास का पुनर्निर्माण करना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*